

जनपद बाराबंकी

दिनांक 18.10.2021

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक मोबाइल फोन व 2130/-रुपये बरामद-

राहुल कुमार तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी भरथापुर मजरे महुआलखन थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ने दिनांक 15.10.2021 को थाना कोतवाली नगर पर सूचना दिया कि दिनांक 30.09.2021 की रात्रि में डीसीएम नं0 यूपी 32 एनएन 9526 लखनऊ से फ्लिपकार्ट कंपनी से सामान लोड करके बांसी जिला सिद्धार्थनगर के लिए जा रहा था कि कमता पर दो व्यक्ति लिफ्ट लेकर गाड़ी में बैठ गये। व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल व 8400/-रुपये ले लिए एवं 20 हजार रुपये की और मांग की। जनपद बाराबंकी के विशाल मेगा मार्ट के पास रात्रि में एटीएम से पैसे निकालने के बहाने में जान बचाकर भाग गया। जो लोग मेरे गाड़ी पर बैठे थे वो लोग आपस में जावेद व छोटू नाम ले रहे थे। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 790/2021 धारा 386 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 अवधेश सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में दिनांक- 18.10.2021 को स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा विवेचना/साक्ष्य संकलन के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से एक मोबाइल फोन व 2130/-रुपये बरामद हुए। मुकदमा उपरोक्त में धारा 392/411 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मो0 जावेद पुत्र अतीक अहमद निवासी शहावपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी।
2. छोटू उर्फ मो0 सुहैल पुत्र मो0 गुलफाम निवासी शहावपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी।

बरामदगी-

1. 01 अदद मोबाइल फोन
2. 2130/-रुपये

पुलिस टीम:-

थाना कोतवाली नगर-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अमर सिंह जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री प्रफुल्ल कुमार, उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
3. का0 अश्वनी सिंह, का0 सावन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

स्वाट/सर्विलांस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम श्री अनिल कुमार पाण्डेय मय टीम